

वाहन आवेदन पत्र  
Application for Vehicle

आवेदक का नाम Name of the Applicant .....

वाहन की आवश्यकता Vehicle Required :

दिनांक से Date from ..... Date दिनांक तक to .....

स्थान जहाँ से वाहन की आवश्यकता है : .....

Place from where Vehicle is required

समय Time से from ..... तक to .....

गन्तव्य स्थल Place of Visit .....

यात्रा का उद्देश्य Purpose of Visit :.....

वाहन के सहयोगियों के नाम : .....

Name of Co-Travelers : .....

: .....

आवेदक के हस्ताक्षर Signature of Applicant

आवेदन दिनांक / ..... समय Time .....

Date of Application

संस्तुतित / संस्तुतित नहीं

Recommended/Not Recommended

विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

Signature of Divisional Head/Sectional Head

परिवहन अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Transport Officer

वाहन चालक का नाम Name of the Driver: .....

वाहन संख्या Vehicle No. : .....